



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 382 राँची, मंगलवार

12 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

2 जून, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

29 मई, 2015

संख्या- 4/न.वि./गठन/135/2014-... 1955(अनु0)-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1), (2) धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, सरायकेला-खरसाँवा जिलान्तर्गत चाण्डिल, रूचाप, गांगूडीह, शहरबेड़ा, कदमडीह, सिकली एवं लेंगडीह राजस्व ग्रामों को मिलाकर कुल जनसंख्या-15703 होने के फलस्वरूप संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (नगर पंचायत) के रूप में घोषित करने संबंधी "प्रारूप आदेश" निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अंदर चाण्डिल नगर पंचायत के गठन के प्रस्ताव/ प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव, उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों / सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा-2 के अधीन उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखंड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1), (2) धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरायकेला-खरसाँवा जिलान्तर्गत सात राजस्व ग्रामों यथा, चाण्डिल, रूचाप, गांगुडीह, शहरबेड़ा, कदमडीह, सिकली एवं लेंगडीह (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न) को मिलाकर संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (चाण्डिल नगर पंचायत) के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अनुलग्नक- I

चाण्डिल नगर पंचायत का गठन

अनुमंडल पदाधिकारी, चाण्डिल के पत्रांक-743, दि. 18 जुलाई, 14 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित चाण्डिल नगर पंचायत में समाहित होनेवाले 07 राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्यावार निम्नवत है:-

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	क्षेत्रफल		जनसंख्या	
			एकड़ में	वर्ग कि.मी.	वर्ष 2011 के अनुसार	घनत्व
1	चाण्डिल	246	273.52	1.106	4849	4384.267
2	रूचाप	238	711.59	2.879	4147	1440.43
3	गांगुडीह	249	1576.16	6.377	2924	458.522

4	शहरबेड़ा	252	471.34	1.907	504	264.289
5	कदमडीह	247	178.57	0.722	2071	2868.421
6	सिकली	253	199.67	0.807	471	583.643
7	लेंगडीह	245	63.28	0.256	737	2878.906
कुल योग-			3474.13	14.054	15703	1117.333

(ह0/-) अस्पष्ट,
सचिव,
नगर विकास विभाग ।
